

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी 2025—पौष 17, शक 1946

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2025

क्र. एफ-1-5-5-11-2024-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक में आयुष विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है :-

अनुसूची-एक

(1) आयुष विभाग

पद की श्रेणी	पद/संघ का नाम	सीबी के कुल स्वीकृत पद	सीबी के मती के द्वारा भरे हुये पद	रिक्त पद (3-3b)	निशकाज नों के लिए विन्दा कित पदों की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दिव्यांगजनों हेतु विन्दाकित पद/भरे पद/रिक्त पदों की जानकारी										रिक्त पदों की पूर्ति का तक की जायेगी					
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) विन्दा कित पद	भरे पद	रिक्त पद	बहरे और कुल भुगने वाले (1.6%) विन्दा कित पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद		भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
प्रथम	जिला आयुष अधिकारी	13	13	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
प्रथम	अधीनक शास आनु महा. चिकि.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
प्रथम	विशेषज्ञ आयुर्वेद	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
प्रथम	विशेषज्ञ होम्योपैथी	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
तृतीय	शीघ्रलखक	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
तृतीय	स्टेनो टायफिस्ट	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
तृतीय	सहायक ग्रेड 3 स्वास्थ्यालय	14	12	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
तृतीय	समाधि सगाठन	64	63	1	4	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	4	0	4	
द्वितीय	आयुर्वेदी चिकि. अधि.	1582	882	700	95	23	0	23	24	0	24	24	0	24	24	0	24	85	0	85	
द्वितीय	होच्योथी चिकि. अधि.	209	159	50	13	3	0	3	4	0	4	3	0	3	3	0	3	13	0	13	
द्वितीय	रंगानी चिकि. अधि.	68	43	26	4	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	4	0	4	

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी मर्ती के कुल स्वीकृत पद	सीधी मर्ती के द्वारा भरे हुये पद	रिक्त पद (3-3a)	नियोजन नों के लिए किताबों की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दिव्यांगजनों हेतु विहाकित पद/भरे पद/रिक्त पदों की जानकारी										रिक्त पदों की पूर्ति का तक की जायेगी					
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) किताबें पद	भरे पद	रिक्त पद	बहरे और कम बुनने वाले (1.5%) किताबें पद	भरे पद	रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद		रिक्त पद	रिक्त पद			
1	2	3	3(अ)	3(ब)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
वृतीय	अयुर्वेद कम्पाउण्डर / फार्मासिस्ट	1176	1062	114	71	17	3	14	18	1	17	18	1	17	18	0	18	71	5	66	
वृतीय	यूनानी कम्पाउण्डर	53	37	16	3	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	3	0	3	
वृतीय	होम्योपैथी कम्पाउण्डर	164	161	3	10	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2	10	0	10	
वृतीय	स्टाफ नर्स	69	55	14	4	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	4	1	3	
	योग	3435	2502	933	206	49	4	45	54	1	63	53	1	52	50	0	50	206	6	200	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अंकिता धाकरे, उपसचिव.